

2023 में सर्वोच्च न्यायालय में उल्लेखनीय मामलों के नसितारण में वृद्धि

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने वर्ष 2023 के दौरान मामलों के नसितारण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो इस अवधि के दौरान दर्ज मामलों की संख्या से अधिक है।

मामलों के नसितारण में योगदान देने वाले कारक:

- SC ने 1 जनवरी से 15 दिसंबर, 2023 के बीच 52,191 मामलों का नसितारण किया, जबकि इसी अवधि के दौरान 49,191 मामले भी दर्ज किये गए थे।
- 2017 में लागू [इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम \(ICMIS\)](#) ने अधिकतम नसितारण संख्या प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- [भारत के मुख्य न्यायाधीश](#) ने [फाइलिंग-टू-लसिटिंग समय सीमा](#) को सुव्यवस्थित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि पिछले 10-दिनी की आवश्यकता की तुलना में मामलों को [पाँच दिनों के भीतर सूचीबद्ध](#) किया गया था।
 - [ज़मानत, बंदी परतयकषीकरण, वधिवंस](#) और [अग्रमि ज़मानत](#) से संबंधित मामलों को एक दिनी के भीतर संसाधित किया गया तथा स्वतंत्रता के अधिकार को प्राथमिकता देते हुए तुरंत अदालतों में सूचीबद्ध किया गया।
- विशेष पीठों का गठन किया गया, जिनमें मृत्युदंड से संबंधित पीठें भी शामिल थीं।

इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (ICMIS) क्या है ?

- ICMIS SC द्वारा अपनाया गया अगली पीढ़ी का हाइब्रिड [डेटाबेस](#) है। यह मामलों से संबंधित विभिन्न सूचना स्रोतों को एकीकृत करता है, जैसे मामले की स्थिति, आदेश, नरिणय, अपील आदि।
- ICMIS एक [उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस](#) के माध्यम से [वादियों को ऑनलाइन जानकारी तक पहुँचने](#) और पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह मामलों की प्रगतपर वास्तविक समय अपडेट भी प्रदान करता है।
- ICMIS केस दाखल करने तथा नसितारण में हेरफेर और देरी को कम करने में मदद करता है। यह ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से मामलों और दस्तावेज़ों को ऑनलाइन दाखल करने की सुविधा भी प्रदान करता है।

लंबित मामलों को नपिटाने से संबंधित अन्य पहल क्या हैं?

- [ई-न्यायालय](#):
 - भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय तक पहुँच बढ़ाने की दशा में ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिये [ई-न्यायालय एकीकृत मशिन मोड परियोजना](#) परियोजना शुरू की है।
 - वर्ष 2007 में इसे [राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना](#) के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया, यह भारत की ई-समिति सर्वोच्च न्यायालय और न्याय विभाग के साथ सहयोग करता है।
 - परियोजना दो चरणों में आगे बढ़ी, [पहला चरण वर्ष 2011-2015 तक](#) और [दूसरा चरण वर्ष 2015 में शुरू](#) हुआ, जिसमें ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- [फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय \(FTSC\)](#):
 - [FTSC](#) की स्थापना [यौन अपराधों](#), विशेष रूप से [यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम \(POCSO अधिनियम\)](#) के तहत मुकदमों की [सुनवाई](#) में तेज़ी लाने के लिये की गई थी, ताकि नियमित न्यायालयों में होने वाले वलिंब का समाधान किया जा सके।
 - [आपराधिक कानून \(संशोधन\) अधिनियम, 2018](#) के माध्यम से अधिनियमिति, यह न्यायालय कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के तहत संचालित होता है।
- न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिये [सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल \(SUPACE\)](#):

- न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिये सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल (Supreme Court Portal for Assistance in Court's Efficiency- SUPACE), न्यायाधीशों के लिये तैयार किया गया एक उपकरण, एक तथ्य तथा वधिसंग्रह प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो नरिणय लेने के लिये प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। हालाँकि यह स्वयं नरिणय नहीं लेता है, यह नरिणय लेने में इनपुट मांगने वाले न्यायाधीशों के लिये तथ्यों को संसाधित करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारतीय न्यायापालिका के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

1. भारत के राष्ट्रपतकी पूरवानुमतसे भारत के मुख्य न्यायमूरतदिवारा उच्चतम न्यायालय से सेवानवित्त कसिी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
2. भारत में कसिी भी उच्च न्यायालय को अपने नरिणय के पुनरवलोकन की शक्तप्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-s-remarkable-case-disposal-surge-in-2023>

